



सिटी कम्प्लाइंस ऑडिट कमेटी के लिए आवेदन मंगवा रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (3 जून, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, उन नागरिकों से आवेदन मंगवा रही है, जिनकी रुचि सिटी की कम्प्लाइंस ऑडिट कमेटी (Compliance Audit Committee) को सेवा देने में है।

म्युनिसिपल इलेक्शन्स एक्ट, 1996 (Municipal Elections Act, 1996) के अंतर्गत, कमेटी उन योग्य मतदाताओं के आवेदनों पर विचार करेगी, जो उचित आधारों पर, यह मानते हैं कि म्युनिसिपल चुनावों के उम्मीदवारों या रजिस्टर्ड तृतीय पक्ष के विज्ञापक ने, कैंपेन संबंधी फाइनेंसेज के संबंध में एक्ट के विधान को तोड़ा है। कमेटी में कम से कम तीन और सात तक मेम्बर होंगे। टर्म ऑफ ऑफिस, 15 नवंबर, 2022 से 14 नवंबर, 2026 तक, अगली टर्म ऑफ काउंसिल (Term of Council) के साथ समानांतर होगी।

आवेदक की योग्यता संबंधी शर्तें

आवेदक, ब्रैम्पटन में रहने या काम करने वाले प्रोफेशनल होने चाहिए। इसके अलावा, सिटी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और/या लॉ में पृष्ठभूमि और अनुभव वाले आवेदक ढूंढ रही है। आवेदकों के पास ये योग्यताएं होनी चाहिए:

- म्युनिसिपल चुनावों का प्रमाणित ज्ञान और समझ, *म्युनिसिपल इलेक्शन्स एक्ट* के कैंपेन फाइनेंसिंग नियमों सहित
- विश्लेषण और फैसले लेने संबंधी सिद्ध कौशल
- कमेटियों, टास्क फोर्सिज या ऐसी ही सेटिंग्स में काम करने का अनुभव
- Quasi-न्यायिक प्रोसीडिंग्स का प्रमाणित ज्ञान
- दिन के दौरान और शाम के समय, मीटिंगों में शामिल होने के लिए उपलब्धता और स्वेच्छा
- मौखिक और लिखित संचार संबंधी श्रेष्ठ कौशल

वे व्यक्ति, जो आवेदन करने के लिए अयोग्य हैं

म्युनिसिपल इलेक्शन्स एक्ट के मुताबिक, निम्नलिखित व्यक्ति, कमेटी में अपॉइंटमेंट के लिए योग्य नहीं हैं:

- सिटी ऑफ ब्रैम्पटन या शहर के अंदर मौजूद स्कूल बोर्ड्स के कर्मचारी
- ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) या लोकल बोर्ड्स के मेम्बर
- उन चुनावों में उम्मीदार, जिनके लिए कमेटी स्थापित की गई है
- उन चुनावों में म्युनिसिपल्टी में रजिस्टर्ड तृतीय पक्ष, जिनके लिए कमेटी स्थापित की गई है

आवेदन फार्म और रिज्यूमे, सिटी क्लर्क के ऑफिस में, सोमवार, 13 जून, 2022, शाम 4:30 बजे तक जमा किए जाने आवश्यक हैं।



एक सलेक्शन कमेटी (Selection Committee), आवेदकों का इंटरव्यू लेगी और सिटी काउंसिल को अपॉइंटमेंट संबंधी परामर्श देगी। योग्य आवेदकों को, इंटरव्यू की तारीख और समय की पुष्टि करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया जाएगा। अपॉइंटमेंट्स, सिटी काउंसिल के द्वारा 1 अक्टूबर, 2022 तक की जाएंगी।

-30-

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

multiculturalmedia@brampton.ca